



Sidharth Gupta



Garima

Model: Horoscope-Matching

Order No: 121863801


पुल्लिंग :	लिंग	: स्त्रीलिंग
05/11/1995 :	जन्म तिथि	: 13/12/1999
रविवार :	दिन	: सोमवार
घंटे 08:55:00 :	जन्म समय	: 13:52:00 घंटे
घटी 05:40:12 :	जन्म समय(घटी)	: 16:53:34 घटी
India :	देश	: India
Jaipur :	स्थान	: Jaipur
26:53:00 उत्तर :	अक्षांश	: 26:53:00 उत्तर
75:50:00 पूर्व :	रेखांश	: 75:50:00 पूर्व
82:30:00 पूर्व :	मध्य रेखांश	: 82:30:00 पूर्व
घंटे -00:26:40 :	स्थानिक संस्कार	: -00:26:40 घंटे
घंटे 00:00:00 :	ग्रीष्म संस्कार	: 00:00:00 घंटे
06:38:55 :	सूर्योदय	: 07:06:34
17:41:29 :	सूर्यास्त	: 17:34:44
23:48:02 :	चित्रपक्षीय अयनांश	: 23:51:08
वृश्चिक :	लग्न	: मीन
मंगल :	लग्न लग्नाधिपति	: गुरु
मीन :	राशि	: मकर
गुरु :	राशि-स्वामी	: शनि
रेवती :	नक्षत्र	: धनिष्ठा
बुध :	नक्षत्र स्वामी	: मंगल
3 :	चरण	: 1
वज्र :	योग	: व्याघात
तैतिल :	करण	: बालव
चा-चाणक्य :	जन्म नामाक्षर	: गा-गामिनी
वृश्चिक :	सूर्य राशि(पाश्चात्य)	: धनु
विप्र :	वर्ण	: वैश्य
जलचर :	वश्य	: जलचर
गज :	योनि	: सिंह
देव :	गण	: राक्षस
अन्त्य :	नाड़ी	: मध्य
सिंह :	वर्ग	: मार्जार

ग्रह अंश एवं विंशोत्तरी

विंशोत्तरी बुध 8वर्ष 4मा 7दि शुक्र	अंश	राशि	ग्रह	राशि	अंश	विंशोत्तरी मंगल 5वर्ष 7मा 19दि गुरु
14/03/2011	16:55:09	वृश्चि	लग्न	मीन	24:01:49	02/08/2023
14/03/2031	18:26:05	तुला	सूर्य	वृश्चि	27:01:00	02/08/2039
शुक्र 13/07/2014	23:26:53	मीन	चंद्र	मक	25:55:55	गुरु 19/09/2025
सूर्य 14/07/2015	17:14:51	वृश्चि	मंगल	मक	19:16:19	शनि 02/04/2028
चन्द्र 13/03/2017	07:27:52	तुला	बुध	वृश्चि	09:17:43	बुध 08/07/2030
मंगल 13/05/2018	23:03:22	वृश्चि	गुरु व	मेष	01:14:59	केतु 14/06/2031
राहु 13/05/2021	08:19:50	वृश्चि	शुक्र	तुला	14:49:12	शुक्र 12/02/2034
गुरु 12/01/2024	24:26:18	कुंभ व	शनि व	मेष	17:14:28	सूर्य 02/12/2034
शनि 14/03/2027	02:44:08	तुला	राहु	कर्क	10:33:02	चन्द्र 02/04/2036
बुध 12/01/2030	02:44:08	मेष	केतु	मक	10:33:02	मंगल 08/03/2037
केतु 14/03/2031	03:05:46	मक	हर्ष	मक	20:05:04	राहु 02/08/2039
	29:14:24	धनु	नेप	मक	08:42:24	
	05:58:49	वृश्चि	प्लूटो	वृश्चि	16:53:31	

व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट


23:48:02 चित्रपक्षीय अयनांश 23:51:08



अष्टकूट गुण सारिणी

कूट	वर	कन्या	अंक	प्राप्त	दोष	क्षेत्र
वर्ण	विप्र	वैश्य	1	1.00	--	जातीय कर्म
वश्य	जलचर	जलचर	2	2.00	--	स्वभाव
तारा	प्रत्यारि	साधक	3	1.50	--	भाग्य
योनि	गज	सिंह	4	0.00	--	यौन विचार
मैत्री	गुरु	शनि	5	3.00	--	आपसी सम्बन्ध
गण	देव	राक्षस	6	1.00	--	सामाजिकता
भकूट	मीन	मकर	7	7.00	--	जीवन शैली
नाडी	अन्त्य	मध्य	8	8.00	--	स्वास्थ्य/संतान
कुल :			36	23.50		

कुल : 23.5 / 36



अष्टकूट मिलान

ऐपकीतजी ळनचजं का वर्ग सिंह है तथा ळंतपउं का वर्ग मार्जार है। इन दोनों वर्गों में परस्पर सम है।

अष्टकूट मिलान के अनुसार ऐपकीतजी ळनचजं और ळंतपउं का मिलान अत्युत्तम है।

मंगलीक दोष मिलान

ऐपकीतजी ळनचजं मंगलीक है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में प्रथम भाव में स्थित है।

**तनुधनुमदमायुर्लाभ व्ययगः कुजस्तु दाम्पत्यम् ।
विघटयति तद् गृहेशो न विघटयति तुंगमित्रगेहेवा ।।**

यदि मंगल स्व राशि अथवा उच्च का हो तो मंगली दोष भंग हो जाता है।

ढपु;डडमंगंवूदकमइ;0द्धत्र।द्धइल क्योंकि मंगल ऐपकीतजी ळनचजं कि कुण्डली में उच्च का है अतः मंगलीक दोष प्रभावहीन हो जाता है।

**कुजजीवो समायुक्तो युक्तो व कुजचन्द्रमा ।
न मंगली मंगल राहु योग ।**

यदि मंगल-गुरु या मंगल-राहु या मंगल-चंद्र एक राशि में हों तो मंगली दोष भंग हो जाता है।

क्योंकि मंगल एवं गुरु ऐपकीतजी ळनचजं कि कुण्डली में एक राशि में हैं अतः मंगलीक दोष प्रभावहीन हो जाता है।

ळंतपउं मंगलीक नहीं है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में एकादश भाव में स्थित है।

**त्रिषट् एकादशे राहु त्रिषट् एकादशे शनिः ।
त्रिषट् एकादशे भौमः सर्वदोषविनाशकृत् ।।**

वर या कन्या की कुंडली में से एक मंगलीक हो और दूसरे की कुंडली में 3,6,11 वें भावों में राहु, मंगल या शनि हो तो मंगलीक दोष समाप्त हो जाता है।

क्योंकि मंगल ळंतपउं कि कुण्डली में एकादश भाव में स्थित है अतः मंगलीक दोष कट जाता है।

ऐपकीतजी ळनचजं तथा ळंतपउं में मंगलीक मिलान ठीक है।

निष्कर्ष

अष्टकूट एवं मंगलीक दोष न होने के कारण दोनों का मिलान उत्तम है।



अष्टकूट फलादेश

वर्ण

पैर्कीतजी ळनचजं का वर्ण ब्राह्मण तथा ळंतपउं का वर्ण वैश्य है। अतः यह मिलान अति उत्तम है। ळंतपउं सदैव अपने पति तथा घर में बड़ों का सम्मान करेगी तथा उनकी आज्ञा का पालन करती रहेंगी। ळंतपउं मितव्ययी होंगी तथा बचत करके पैसे को लाभदायक उपादानों में निवेश करती रहेंगी।

वश्य

पैर्कीतजी ळनचजं का वश्य जलचर है एवं ळंतपउं का वश्य भी जलचर है अर्थात दोनों का वश्य समान ही है। जिसके कारण यह मिलान अति उत्तम मिलान है। दोनों की शारीरिक स्थिति, स्वभाव, पसंद एवं नापसंद एक ही तरह के होंगे। दोनों के बीच अगाध प्रेम एवं सौहार्द बना रहेगा तथा समान दृष्टिकोण, व्यवहार एवं आपसी समझ होने के कारण एक-दूसरे के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों एक-दूजे के लिए ही बने हुए हैं तथा एक-दूसरे के साथ का आनंद लेते रहेंगे। दोनों एक-दूसरे के कामों में मदद करते रहेंगे तथा परिवार की प्रगति एवं समृद्धि में महती योगदान देंगे।

तारा

पैर्कीतजी ळनचजं की तारा प्रत्यरि तथा ळंतपउं की तारा साधक है। पैर्कीतजी ळनचजं की तारा प्रत्यरि होने के कारण यह मिलान औसत मिलान ही है। विवाह के उपरांत पैर्कीतजी ळनचजं कालांतर में बुरी आदतों, अधोपतन, चरित्रहीनता एवं नैतिक पतन का शिकार हो सकता है। उसके अवैध संबंध भी हो सकते हैं। परिणामस्वरूप ळंतपउं को काफी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य में तनाव, निराशा, अवसाद एवं पीड़ा के कारण उसका झुकाव अध्यात्म की ओर हो सकता है।

योनि

पैर्कीतजी ळनचजं की योनि गज है तथा ळंतपउं की योनि सिंह है। अर्थात दोनों की योनि समान नहीं है। इन दोनों योनि के बीच परस्पर शत्रुता का संबंध है। अतः यह मिलान बहुत बुरा मिलान ही रहेगा। जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर घरेलू हिंसा होती रहेगी। समय-समय पर एक दूसरे पर आघात भी कर सकते हैं। दोनों के बीच प्रेम एवं सौहार्द का अभाव बना रहेगा। दोनों के बीच परस्पर संदेह की भावना बनी रहगी। वैवाहिक जीवन में स्थिति मुकदमेबाजी तक भी जी सकती है। दोनों के बीच अलगाव की चाह भी हो सकती है। एक घर में रहकर स्थिति तलाक जैसी बनी रह सकती है। परस्पर अविश्वास की भावना के कारण वैवाहिक जीवन संघर्षपूर्ण व कलेशपूर्वक बीतने की संभावना है। अतः अपने वैवाहिक जीवन को बचाये रखने के लिए दोनों को परस्पर विश्वास व सहयोग की आवश्यकता है अन्यथा घरेलू हिंसा होने के कारण चोट भी लग सकती है। वैचारिक मतभेदों को बुद्धि बल तथा समझदारी से निपटाना चाहिये अन्यथा लड़ाई झगड़े से किसी भी समस्या का हल निकाल पाना असंभव है।

मैत्री

अष्टकूट मिलान में ग्रह मैत्री कूट में ऐपकीतजी ळनचजं एवं ळंतपउं दोनों के राशि स्वामी परस्पर सम हैं। अतः यह मिलान ग्रह मैत्री के विचार से औसत मिलान है। ज्योतिष की दृष्टि से यह मिलान औसत माना जायेगा। इसके कारण जीवन एवं करियर में हमेशा उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। दोनों के बीच प्रेम एवं सहयोग का माहौल रहेगा किंतु यदा-कदा आपस में ये लड़ाई-झगड़ा भी कर सकते हैं। हालांकि ये जल्दी ही अपने झगड़े को भुलाकर समझौता भी कर लेंगे तथा जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता पाने के लिए इनको अथक परिश्रम एवं उद्यम करना पड़ सकता है।

गण

ऐपकीतजी ळनचजं का गण देव तथा ळंतपउं का गण राक्षस है। अतः यह मिलान अच्छा मिलान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ळंतपउं निर्दयी, निष्ठुर एवं क्रूर स्वभाव की हो सकती हैं जो वर, उसके बच्चों तथा परिवार के सदस्यों के लिए बुरा एवं घातक साबित हो सकता है। ऐसी पत्नी से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने पति, परिवार अथवा सामाजिक दायित्वों का अच्छी प्रकार से निर्वहन करेंगी। ळंतपउं की अक्सर दूसरों से लड़ाई-झगड़ा करना एवं लोगों को उकसाना इसी प्रकार की आदत होगी।

भकूट

ऐपकीतजी ळनचजं से ळंतपउं की राशि एकादश भाव में स्थित है तथा ळंतपउं से ऐपकीतजी ळनचजं की राशि तृतीय भाव में स्थित है जिसके कारण यह मिलान अति उत्तम मिलान है। जिसके कारण ऐपकीतजी ळनचजं परिश्रमी, प्रिय, खुश तथा अपना हर कार्य को उत्साह से संपादित करने वाले होंगे। वह अपने परिवार, पड़ोसियों तथा पूरे समाज की आंखों का तारा होंगे। उनके अपनी पत्नी के साथ उसके संबंध अति मधुर होंगे। दूसरी ओर ळंतपउं हर गुण से परिपूर्ण होगी तथा पति के लिए सदैव सहायक होंगी। वह स्वयं भी व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त रहकर धन कमायेंगी। तथा घर के प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। साथ ही भविष्य के लिए बचत भी करती रहेंगी।

नाड़ी

ऐपकीतजी ळनचजं की नाड़ी अन्त्य है तथा ळंतपउं की नाड़ी मध्य है। अर्थात दोनों की नाड़ी समान नहीं है, जो कि अष्टकूट मिलान की दृष्टि से दोष मुक्त है। अर्थात यह मिलान अति उत्तम मिलान है। अन्त्य एवं मध्य नाड़ी दो महत्वपूर्ण जीवनी शक्तियों पित्त एवं कफ की कारक हैं। जिसके कारण दम्पति का परस्पर प्रेम, अनुकूलता, अच्छा भविष्य, सहयोग की भावना बनी रहेगी। आपकी संतान शक्तिशाली, बुद्धिमान, आज्ञाकारी एवं भाग्यशाली होंगी।

मेलापक फलित

स्वभाव

पैर्कीतजी ळनचजं की जन्म राशि जलतत्व युक्त मीन तथा ळंतपउं की पृथ्वी तत्व युक्त मकर राशि है। पृथ्वी एवं जलतत्व में नैसर्गिक समता होने के कारण पैर्कीतजी ळनचजं और ळंतपउं की स्वभावगत समानताएं होंगी जिससे परस्पर में संबंधों में मधुरता रहेगी तथा वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा अतः मिलान सामान्यतया अच्छा रहेगा।

पैर्कीतजी ळनचजं की राशि का स्वामी बृहस्पति तथा ळंतपउं की राशि का स्वामी शनि परस्पर सम राशियों में स्थित है। अतः इसके प्रभाव से इनके मध्य प्रेम सहानुभूति तथा सहयोग का भाव रहेगा तथा सुख दुख में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने में तत्पर होंगे जिससे संबंधों में सुदृढ़ता रहेगी तथा दाम्पत्य जीवन भी सुख एवं प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। वे एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करेंगे तथा कमियों की यत्न पूर्वक उपेक्षा करेंगे जिससे आपस में विश्वास तथा आत्मिक आकर्षण रहेगा। इसके अतिरिक्त एक दूसरे के अस्तित्व तथा स्वतंत्रता का भी सम्मान करेंगे जिससे वैवाहिक सुख की अनुकूलता रहेगी।

पैर्कीतजी ळनचजं और ळंतपउं की राशियां परस्पर एकादश एवं तृतीय भाव में पड़ती हैं। शास्त्रानुसार यह शुभ भकूट माना जाता है। अतः इसके प्रभाव से उपरोक्त शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी तथा एक दूसरे के प्रति त्याग का भाव भी विद्यमान होगा। वे एक दूसरे के लिए अत्यंत ही सौभाग्यशाली होंगे तथा आर्थिक स्थिति सर्वदा सुदृढ़ रहेगी तथा भौतिक सुखों का उपभोग करने में भी सुदृढ़ रहेंगे। इस प्रकार सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह स्थिति उत्तम रहेगी।

पैर्कीतजी ळनचजं और ळंतपउं दोनों का वश्य जलचर है। अतः इसके प्रभाव से इनकी अभिरुचियां समान होंगी तथा शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर भी समानताएं रहेंगी। साथ ही दाम्पत्य संबंधों में एक दूसरे को प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करने में समर्थ होंगे।

पैर्कीतजी ळनचजं का वर्ण ब्राह्मण तथा ळंतपउं का वर्ण वैश्य है। अतः पैर्कीतजी ळनचजं की प्रवृत्ति शैक्षणिक तथा धार्मिक कार्यों के प्रति रहेगी जबकि ळंतपउं धनार्जन संबंधी कार्यों में तत्पर रहेंगी तथा धन को जीवन में विशेष महत्व देगी। अतः यदा कदा ऐसी स्थिति में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं।

धन

पैर्कीतजी ळनचजं और ळंतपउं की तारा एक दूसरे के लिए सम रहेगी। अतः इसका आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा सामान्य रूप से धन तथा लाभ प्राप्त करने में दम्पति सफल होंगे। पैर्कीतजी ळनचजं एवं ळंतपउं की राशि परस्पर तृतीय एवं एकादश भाव में पड़ती है। यह शुभ भकूट माना जाता है। इसके प्रभाव से पैर्कीतजी ळनचजं और ळंतपउं की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता तथा सम्पन्नता में वृद्धि होगी तथा मंगल

का प्रभाव भी शुभ ही रहेगा। अतः आय स्रोतों में वृद्धि होगी।

पैकीतजी ळनचजं को लाटरी या सटटे आदि के द्वारा अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है या किसी अन्य स्रोत से एक साथ प्रचुर मात्रा में लाभ के योग बनेंगे। इस प्रकार पैकीतजी ळनचजं और ळंतपउं धनऐश्वर्य से युक्त होकर अपना समय व्यतीत करने में समर्थ होंगे।

स्वास्थ्य

पैकीतजी ळनचजं की नाड़ी अन्त्य तथा ळंतपउं की नाड़ी मध्य है। अतः नाड़ी दोष से ये मुक्त रहेंगे तथा इसका इनके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा परन्तु मंगल का ळंतपउं के स्वास्थ्य पर विशेष अशुभ प्रभाव रहेगा। इससे वे रक्त या पित संबधी परेशानियां प्राप्त करेंगी तथा गुप्त या धातु संबधी रोगों का भी उन्हें सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मासिक धर्म संबधी अनियमिता से भी कष्ट की अनुभूति करेंगी। अतः इन प्रभावों में न्यूनता लाने के लिए ळंतपउं को नियमित रूप से हनुमानजी की उपासना तथा मंगलवार के उपवास करने चाहिए।

संतान

संतति प्राप्ति के दृष्टि से पैकीतजी ळनचजं और ळंतपउं का मिलान उत्तम रहेगा। इसके प्रभाव से उनको संतति की प्राप्ति उचित समय पर होगी तथा इसमें किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। साथ ही बच्चों के मध्य जन्म का अंतर भी अनुकूल रहेगा जिससे उनके उचित पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त इनकी कन्या तथा पुत्र संतति की संख्या समान होगी।

प्रसव काल के प्रति ळंतपउं के मन में अनावश्यक भय की भावना पहले से ही विद्यमान रहेगी जिससे वे मानसिक रूप से अशांति की अनुभूति करेंगी। अतः ळंतपउं को चाहिए कि ऐसी भय की भावना को मन से दूर करें क्योंकि उनका प्रसव बिना किसी विध्न या समस्या के सम्पन्न होगा तथा किसी भी प्रकार से प्रसूति संबधी चिकित्सा की उनको अनावश्यकता नहीं होगी साथ ही उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा सुंदर, स्वस्थ एवं आकर्षक बच्चों को जन्म देने में समर्थ रहेंगी। फलतः इससे सास ससुर तथा पति उनसे प्रसन्न रहेंगे।

पैकीतजी ळनचजं और ळंतपउं बच्चों की उन्नति व्यवहार कुशलता एवं बुद्धिमता से प्रसन्न रहेंगे। साथ ही माता पिता की इच्छा के विरुद्ध वे कोई भी कार्य नहीं करेंगे तथा उनके सम्मान का हमेशा ध्यान रखेंगे। लेकिन माता की अपेक्षा पिता से उनका विशेष लगाव रहेगा तथा उनकी आज्ञा का पूर्ण पालन करेंगे। अतः पैकीतजी ळनचजं और ळंतपउं का पारिवारिक जीवन सुख शांति तथा आनंद पूर्वक व्यतीत होगा।

ससुराल-सुश्री

ळंतपउं के सास से प्रायः अच्छे संबंध रहेंगे। यद्यपि उनकी सास अन्य जनों के मामलों में कम ही हस्तक्षेप करने वाली महिला होंगी तथापि उनके कुछ सिद्धांत ळंतपउं के लिए अनुकरणीय हो सकते हैं। साथ ही इन दोनों के मध्य कोई विशेष समस्या या मतभेद नहीं रहेंगे।

ळंतपउं अपने कुशल व्यवहार मधुर वाणी एवं सेवा भाव से ससुर को प्रसन्न एवं सन्तुष्ट करने में सफलता प्राप्त करेंगी। साथ ही ननद एवं देवरों के साथ भी उनके संबंध मित्रता पूर्ण रहेंगे तथा उनको पूर्ण सहयोग एवं स्नेह प्रदान करेंगी। अतः उनका दिल जीतने में सफल रहेंगी।

इस प्रकार ळंतपउं के प्रति उनके सास ससुर का दृष्टि कोण आत्मयीता से पूर्ण रहेगा तथा घर में उसे पूर्ण सुख सुविधा तथा स्नेह प्रदान करेंगे।

ससुराल-श्री

ैपर्कीतजी ळनचजं तथा सास के संबंधों में विशेष मधुरता का भाव नहीं रहेगा तथा आयु में काफी अंतर होने के कारण दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद रहेंगे लेकिन इनमें अधिक गंभीरता नहीं रहेगी। यदिैपर्कीतजी ळनचजं तथा इनकी सास आपसी सामंजस्य तथा बुद्धिमता से व्यवहार करें तो संबंधों की मधुरता में वृद्धि हो सकती है।

लेकिन ससुर के साथ मेंैपर्कीतजी ळनचजं के संबंध मधुर रहेंगे तथा उनके प्रति मान सम्मान तथा श्रद्धा का भाव रहेगा। साथ ही उनसे पिता के समान ही व्यवहार करेंगे। साथ ही वे भीैपर्कीतजी ळनचजं को पुत्रवत स्नेह तथा वात्सल्य प्रदान करेंगे।ैपर्कीतजी ळनचजं समय समय पर अपने ससुर से आवश्यक तथा बहुमूल्य सलाह तथा निर्देश भी प्राप्त करते रहेंगे परन्तु साले तथा सालियों के साथ में संबंधों में तनाव तथा मतभेद रहेंगे तथा एक दूसरे के प्रति आलोचना तथा प्रतिद्वन्दिता का भाव रहेगा जिससे आपस में स्नेह सहयोग तथा सहानुभूति के भाव में न्यूनता रहेगी।

इस प्रकार सामान्य रूप से ससुरालवालों का दृष्टिकोणैपर्कीतजी ळनचजं के प्रति अनुकूल ही रहेगा।